



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आषाढ़ 1939 (श०)

(सं० पटना 519) पटना, वृहस्पतिवार, 22 जून 2017

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

21 जून 2017

जी० एस० आर० 06 दिनांक 22 जून 2017—भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता मामले विभाग के विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना आदेश, 2002, विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (दूसरा संशोधन) आदेश, 2015 प्रकाशित द्वारा सा० का० नि०-929(अ) दिनांक 29 सितम्बर, 2016 एवं विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अपेक्षाएँ, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2015 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 10) की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल दाल-दलहन के अनुज्ञापन, स्टॉक सीमा और संचलन निर्बंधन के संबंध में निम्नलिखित आदेश करते हैं :-

(1) बिहार व्यापारिक वस्तु (अनुज्ञापन एकीकरण) आदेश 1984 के साथ पठित विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक 5670 दिनांक 18.12.2009 द्वारा दाल एवं दलहन के सम्बन्ध में निर्गत आदेश सा०का०नि० 929 (अ) दिनांक 29.09.2016 के द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 सितम्बर, 2017 तक लागू किया गया था, जो बिहार गजट (असाधारण अंक) की अधिसूचना सं० जी०एस०आर०-2 दिनांक 15 मार्च 2017 के द्वारा अधिसूचित किया गया था, जिसे भारत का राजपत्र उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग), नई दिल्ली द्वारा का०आ० 1600(अ) दिनांक 17 मई 2017 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(2) एतदसम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

(3) यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

(सं० प्र०४/आ-०१/१५-२९५५)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भरत कुमार दुबे,

सरकार के विशेष सचिव।

The 21st June 2017

GSR 06 dated 22nd June 2017— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2011, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs Order, 2002, the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Second Amendment) Order, 2015 published through S.O. 929 (E) dated 29.09.2016 and the Removal of (Licensing Requirements, Stock limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) Order, 2015, all of the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), Government of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following order regarding licensing, stock limits and movement restriction of pulses :-

(1) The Order made regarding pulses by the department's notification no. 5670 dated 18.12.2009 read with the Bihar Trade Articles (Unification of Licenses) Order, 1984, published through S.O. 929 (E) dated 29.09.2016 was earlier made enforceable till 30 September, 2017 from the date of issuance of this Order, which was notified by Bihar Gazette (extra ordinary) GSR-2 dated 15th March 2017, is being null and void with immediate effect, in accordance with Gazette of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Consumer Affairs), New Delhi through Order S.O. 1600 (E) Dated 17th May 2017.

(2) Previously issued corresponding notifications/orders shall be deemed to be amended to this extent.

(3) This Order shall come into force from the date of its notification.

(No. Pra-04-aa-01/15-2955)

By order of the Governor of Bihar,

BHARAT KUMAR DUBEY,

Special Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 519-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>